

14230
28/6/04

रजि. सं. 14230
28/6/04

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

27/3/04 को प्राप्त

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रमारी



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 500

KM 30

Depth 250

CPB 220

सं. 139]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2004/फाल्गुन 28, 1925

No. 139]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2004/PHALGUNA 28, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2004

सं. 48/2004-सीमाशुल्क

प्रमारी

वि. सं. 48/2004

सा. का. नि. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के कम सं० 25 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“ 26	रक्षा मंत्रालय के धनुष कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर, उपकरण, संघटक, अतिरिक्त पुर्जें, जिग, फिक्सचर, डाई, औजार, उपसाधन, कंप्यूटर साफ्टवेयर, कच्ची सामग्री और खपने वाली सामग्री ।	यदि, (क) उक्त माल का आयात धनुष कार्यक्रम के कर्मशाला केन्द्र, सरकारी अभिकरण या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा, जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिहित किए जाए, किया जाता है; और (ख) ऐसे आयातकर्ता, प्रत्येक मामले में, आयात के समय, उक्त माल के सुसंगत वर्णन सहित एक सूची,- (1) जो कार्यक्रम सदस्य सचिव, प्रोग्राम प्रबंधन बोर्ड (एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम) द्वारा सम्यक रूप से इस आशय के बारे में प्रमाणित हो कि उक्त माल धनुष कार्यक्रम के लिए अपेक्षित है, उनका उपयोग केवल धनुष कार्यक्रम के लिए किया जाएगा और भारत में विनिर्माण नहीं किया गया है । और

(1)	(2)	(3)
		(2) जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो इस आशय के बारे में सम्यक रूप से प्रमाणित हो कि उक्त सूची में उल्लिखित उक्त माल के आयात धनुष कार्यक्रम के अधीन और उसके प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत है, यथास्थिति, उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं।”

[फा. सं. 354/30/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण:— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में, अधिसूचना सं० 39/96— सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा०का०नि० 291 (अ)], तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित हुई थी एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 41/200—सीमाशुल्क, तारीख 27 फरवरी 2004 [सा०का०नि० 150 (अ), तारीख 27 फरवरी 2004] द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2004

No. 48/2004-CUSTOMS

G.S.R. 199(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, namely:—

In the said notification, in the Table, after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be added, namely:—

(1)	(2)	(3)
“26.	Machinery, equipment, instruments, components, spares, jigs and fixtures, dies, tools, accessories, computer software, raw materials and consumables required for the purpose of DHANUSH Programme of the Ministry of Defence.	<p>If,—</p> <p>(a) the said goods are imported by work centres of the DHANUSH Programme, Government agencies or public sector undertakings, as the case may be, designated by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence; and</p> <p>(b) such importers produce to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description, —</p> <p>(1) duly certified by the Member Secretary, Programme Management Board (Integrated Guided Missile Development Programme) to the effect that the said goods are required for the DHANUSH Programme, shall be used only for the DHANUSH programme and that they are not manufactured in India; and</p>

(1)

(2)

(3)

(2) duly certified also by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence to the effect that the import of the said goods mentioned in the said list is authorized by the Ministry of Defence under and for the purposes of the DHANUSH Programme.”.

[F. No. 354/30/2004-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Note :— The principal notification No.39/96-Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 291 (E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No.41/2004-Customs, dated the 27th February, 2004 [G.S.R. 150 (E), dated the 27th February, 2004].